

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 125]
No. 125]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 21, 2007/फाल्गुन 30, 1928
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 21, 2007/PHALGUNA 30, 1928

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2007

सा.का.नि. 217(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग के कृषि उद्यान प्रभाग के अधीन अधीनस्थ कार्यालय, केन्द्रीय कृषि उद्यान संस्थान, मेडनी फेंसा, नगरपालिका में संघ 'क', 'ख' और 'ग' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

*1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय कृषि उद्यान संस्थान (संघ 'क', 'ख' और 'ग' पद) भर्ती नियम, 2007 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान ये होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और शैक्षिक अर्हताएं आदि :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और अन्य संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. आरंभिक यथेष्ट.—अनुसूची में संक्षिप्त पदों के ऐसे पदधारी जिन्हें इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से पहले पदों पर नियुक्त किया गया है, नियमित आधार पर इन नियमों के अधीन नियुक्त किए हुए समझे जाएंगे और इन नियमों के प्रकाशन से पूर्व इन पदों पर उनके द्वारा की गई सेवा अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए उनकी शक्तों का विनिश्चय करने के लिए हिसाब में ली जाएगी।

6. विवाह :—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी को जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्त का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लंग्वयद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन अथवा अचयन | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा | सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं |
|--|--|---|---------------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. निदेशक | 1 (12007) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय | 16400-450-20900 रु. | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | | | | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो |
| 8 | | | | 9 | | 10 |
| लागू नहीं होता | | | | लागू नहीं होता | | लागू नहीं होता |
| भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता | | | | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा | | |
| 11 | | | | 12 | | |
| प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक सौविदा भी है) | | | | प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक सौविदा भी है) | | |
| | | | | केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों/कृषि विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् जिसमें अनुसंधान संस्थाएं हैं, के अधीन ऐसे अधिकारी :- | | |
| | | | | (क) (i) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किया हुआ है : या | | |
| | | | | (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 14300-18300 रु. के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है; और | | |
| | | | | (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है :- | | |
| | | | | (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में मास्टर डिग्री जिसमें उद्यान कृषि में विशेषज्ञ हो या एम.एस.सी. (कृषि उद्यान) के पश्चात् पी.एच.डी कृषि उद्यान में की हो या समतुल्य। | | |

12

(ii) कृषि उद्यान विकास/अनुसंधान के क्षेत्र में 12 वर्ष का अनुभव।

प्रतिनियुक्ति की अवधि, (जिसके अन्तर्गत अल्पकालीन संधिदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अन्तर्गत अल्पकालीन संधिदा भी है) साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संधिदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

लागू नहीं होता

14

पद भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------|---|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| 2. उद्यान कृषि विशेषज्ञ | 2*(2007) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय। | 10000-325-15200 रु. | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| 8 | 9 | | 10 | | | |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | | लागू नहीं होता | | | |
| 11 | 12 | | | | | |

प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संधिदा भी है)

प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संधिदा भी है)

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों/कृषि विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् जिसमें उसकी अनुसंधान संस्थाएं हैं, के अधीन ऐसे अधिकारी :-

- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं ; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 8000-13500 रु. के या समतुल्य वेतनमान पर नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और
- (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव हैं :-

- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में मास्टर डिग्री जिसके साथ जिसमें उद्यान कृषि में विशेषज्ञता हो या एम.एस.सी. (कृषि उद्यान) और तत्पश्चात् उद्यान कृषि में पी.एच.डी की हो या समतुल्य।

12

(ii) उद्यान कृषि विकास/अनुसंधान के क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव ।

प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

| 13 | 14 |
|------------------|--|
| लागू नहीं होता । | पद भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है । |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------------|---|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 3. सहायक उद्यान कृषि विशेषज्ञ | 3*(2007) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय । | 8000-275-13500 रु. | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| | | | 8 | 9 | 10 | |
| लागू नहीं होता | | | लागू नहीं होता | | | लागू नहीं होता |

| 11 | 12 |
|---|---|
| प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) | <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)</p> <p>केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/कृषि विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् जिसमें उसकी अनुसंधान संस्थाएं भी हैं, के अधीन ऐसे अधिकारी :-</p> <p>(क) (i) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर 6500-10500 रु. के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और</p> <p>(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव हैं :-</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में मास्टर डिग्री जिसके साथ उद्यान कृषि में विशेषज्ञता हो या एम.एस.सी. (उद्यान-कृषि) या समतुल्य ।</p> <p>(ii) उद्यान कृषि विकास/अनुसंधान के क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव ।</p> <p>प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अन्तर्गत</p> |

12

अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

13

लागू नहीं होता।

14

पद धरने के लिए खंख लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------------------|--|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 4. ज्येष्ठ फार्म प्रबंधक | 1* (2007) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसंधितीय। | 8000-275-13500 रु. | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

8

लागू नहीं होता

9

लागू नहीं होता

10

लागू नहीं होता

11

प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

12

प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/कृषि विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् जिसमें उसकी अनुसंधान संस्थाएं भी हैं, के अधीन ऐसे अधिकारी :-

- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर 6500-10500 रु. के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और
- (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :-

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि उद्घान/कृषि में डिग्री जिसके साथ उद्घान कृषि में विशेषज्ञता हो या समतुल्य।
- (ii) उद्घान कृषि या कृषि फार्मों के प्रबंधन में तीन वर्ष का अनुभव।

प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

| | | | | | | |
|---|---|--|---------------------|---|----------------|----------------|
| 13 | | | | 14 | | |
| लागू नहीं होता । | | | | पद भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है । | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5. शस्य पश्च प्रौद्योगिकी-विद् | 1* (2007) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय । | 10000-325-15200 रु. | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| 8 | | 9 | | 10 | | |
| लागू नहीं होता | | लागू नहीं होता | | लागू नहीं होता | | |
| 11 | | | | 12 | | |
| प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) | | | | प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) | | |
| | | | | केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/कृषि विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् जिसमें उसकी अनुसंधान संस्थाएं भी हैं, के अधीन ऐसे अधिकारी :- | | |
| | | | | (क) (i) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं : या | | |
| | | | | (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर 8000-13500 रु. के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और | | |
| | | | | (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव हैं :- | | |
| | | | | (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उद्यान कृषि/पशु फसल कटाई प्रौद्योगिकी/कृषि में मास्टर डिग्री जिसके साथ पशु फसल कटाई प्रबंधन में विशेषज्ञता हो या समतुल्य । | | |
| | | | | (ii) उद्यान कृषि या कृषि के क्षेत्र में पशु फसल कटाई प्रबंधन में 5 वर्ष का अनुभव । | | |
| | | | | प्रतिनियुक्ति की अवधि, (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर ब्राह्म्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । | | |
| 13 | | | | 14 | | |
| लागू नहीं होता । | | | | पद भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है । | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------|--|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| 6. विपणन विशेषज्ञ | 1*(2007) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय। | 10000-325-15200 रु. | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| 8 | | | 9 | | 10 | |
| लागू नहीं होता | | | लागू नहीं होता | | लागू नहीं होता | |
| 11 | | | | | 12 | |

प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक सविदा भी है)

प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक सविदा भी है)

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/कृषि विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् जिसके अन्तर्गत उसकी अनुसंधान संस्थाएं भी हैं, के अधीन ऐसे अधिकारी :-

- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर 8000-13500 रु. के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और
- (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :-

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर आफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या समतुल्य।
- (ii) कृषि/उद्यान कृषि उत्पादन के विपणन के संदर्भ में किसी पब्लिक या प्राइवेट संस्था/संगठन में उद्यान विकास/कृषि विपणन/कृषि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव।

प्रतिनियुक्ति की अवधि, (जिसके अन्तर्गत अल्पकालीन सविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

| | | | | | | |
|-------------------------|---|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7. प्रशासनिक अधिकारी | 1*(2007) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय। | 8000-275-13500 रु. | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| 8 | 9 | 10 | | | | |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | | | | |
| 11 | 12 | | | | | |
| प्रतिनियुक्ति | <p>प्रतिनियुक्ति</p> <p>केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन ऐसे अधिकारी :-</p> <p>(क) (i) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर 6500-10500 रु. के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उम श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और</p> <p>(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :-</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या समतुल्य।</p> <p>(ii) प्रशासन, स्थापन और लेखा कार्य में तीन वर्ष का अनुभव।</p> <p>प्रतिनियुक्ति की अवधि, (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक सौविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक सौविदा भी है) साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सौविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> | | | | | |
| 13 | 14 | | | | | |
| लागू नहीं होता | पद भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8. निदेशक के निजी सहायक | 1*(2007) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय। | 5500-175-9000 रु. | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| 8 | 9 | 10 |
|----------------|----------------|----------------|
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| 11 | 12 |
|---------------|--|
| प्रतिनियुक्ति | प्रतिनियुक्ति केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन ऐसे अधिकारी :- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में आशुलिपिक श्रेणी-1 में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं; या (ii) मूल काडर/विभाग में 5000-8000 रु. के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् आशुलिपिक श्रेणी में आशुलिपिक के रूप में तीन वर्ष नियमित सेवा की है; और प्रतिनियुक्ति की अवधि, (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्रार्थन करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। |

| 13 | 14 |
|----------------|---|
| लागू नहीं होता | पद भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 9. ज्येष्ठ तकनीकी सहायक | 2*(2007) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग", अराजपत्रित, अननुसचिवीय। | 5000-150-8000 रु. | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| 8 | 9 | 10 |
|----------------|----------------|----------------|
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| 11 | 12 |
|--|--|
| प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) | प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/कृषि विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् जिसके अंतर्गत उसके अनुसंधान संस्थाएं भी हैं, के अधीन ऐसे अधिकारी :- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर 4500-7000 रु. के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है; और |

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :—

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उद्यान कृषि/कृषि में डिग्री या समतुल्य ।

(ii) कृषि/कृषि विकास/विस्तारण/नियोजन/विपणन/अनुसंधान के क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव ।

प्रतिनियुक्ति की अवधि, (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

| 13 | | | | 14 | | |
|-----------------|--|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| लागू नहीं होता | | | | लागू नहीं होता | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10. फील्ड सहायक | 2*(2007) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग", अराजपत्रित, अननुसचिवीय । | 4000-100-6000 रु. | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| 8 | | 9 | | 10 | | |
| लागू नहीं होता | | लागू नहीं होता | | लागू नहीं होता | | |
| 11 | | 12 | | | | |

प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/कृषि विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् जिसके अन्तर्गत उसकी अनुसंधान संस्थाएं भी हैं, के अधीन ऐसे अधिकारी :—

(क) (i) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं ; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर 3200-4900 रु. के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :—

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था की किसी विषय में स्नातक डिग्री या कृषि/उद्यान कृषि में डिप्लोमा या समतुल्य ।

प्रतिनियुक्ति की अवधि, (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य

12

कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------|---|---|-----------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 11. आशु- लिपिक | 2*(2007) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसन्ध्वीय। | 4000-100- 6000 रु. | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| 8 | 9 | | 10 | | | |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | | लागू नहीं होता | | | |

| 11 | 12 |
|--|--|
| प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) | प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) |
| | केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/कृषि विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् जिसके अन्तर्गत उसकी अनुसंधान संस्थाएं भी हैं, के अधीन ऐसे अधिकारी :- |
| | (क) (i) जिन्होंने मूल कांडर/विभाग में नियमित आधार पर सदस्य पद धारण किए हुए हैं ; या |
| | (ii) जिन्होंने 3050-4590 रु. के वेतनमान में उस पद पर आठ वर्ष नियमित सेवा की है; और |
| | (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :- |
| | 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य और आवृत्तिपि में 80 शब्द प्रति मिनट तथा टंकण में 40 शब्द प्रतिमिनट की गति रखता हो। |
| | प्रतिनियुक्ति की अवधि, (जिसमें अन्तर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। |

13

लागू नहीं होता

14

लागू नहीं होता

[फा. सं. 43-7/2006-उद्यान कृषि यूनिट III]

डॉ. एम. एल. चौधरी, बागवानी आयुक्त एवं संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 2007

G.S.R. 217(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'A', 'B' and 'C' posts in the Central Institute of Horticulture, Medziphema, Nagaland, a subordinate office under Horticulture Division of Department of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture, namely :—

1. Short title and commencement.— (i) These rules may be called the Central Institute of Horticulture (Group 'A', 'B' and 'C' posts) Recruitment Rules, 2007.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.— These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, Classification and Scale of pay etc.—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit and other qualifications.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

5. Initial constitution.— The incumbents of the posts shown in the Schedule who were appointed to the posts before the date of commencement of these rules shall be deemed to have been appointed under these rules on regular basis and the services rendered by them in the posts before the publication of these rules shall be taken into account for deciding their eligibility for promotion to the next higher grade.

6. Disqualifications.— No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules, with respect of any class or category of persons.

8. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Serviceman, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of post | Number of post | Classification | Scale of pay | Whether selection or Non-Selection post | Age limit for direct recruits | Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pensions) Rules, 1972 |
|--------------|---|--|---------------------|---|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Director | 1* (2007) *(Subject to variation dependent on work-load) | General Central Services, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial | Rs. 16400-450-20900 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |

| Educational and other Qualifications required for direct recruits | Whether age and Educational Qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any |
|---|---|-----------------------------|
| 8 | 9 | 10 |
| Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption is to be made | |
| 11 | 12 | |
| Deputation (including short-term contract) | <p data-bbox="786 750 1244 771">Deputation (including short-term contract)</p> <p data-bbox="786 797 1414 916">Officers under the Central/State Government/Union Territories/Agricultural Universities/Recognised Research Institutes/Indian Council of Agriculture Research including its Research Institutions :—</p> <p data-bbox="786 944 1414 1002">(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or</p> <p data-bbox="834 1030 1414 1149">(ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 14,300-18,300 or equivalent in the parent cadre/department; and</p> <p data-bbox="786 1177 1414 1235">(b) possessing the educational qualifications and experience as under :—</p> <p data-bbox="834 1263 1414 1381">(i) Master's Degree in Agriculture with specialization in Horticulture or M.Sc. (Horticulture) followed by a PhD in Horticulture of a recognized University or equivalent.</p> <p data-bbox="834 1410 1414 1468">(ii) 12 years' experience in the field of Horticultural Development/Research</p> <p data-bbox="786 1496 1414 1742">Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 5 years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.</p> | |
| If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment | |
| 13 | 14 | |
| Not applicable | Consultation with Union Public Service Commission is necessary for filling up of post. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|---|---|-----------------------|--|----------------|----------------|
| 2. Horticultural Specialist | 2* (2007) *(Subject to variation dependent on work-load) | General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial | Rs. 10,000-325-15,200 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| | | | | | | |
| 8 | 9 | | | 10 | | |
| Not applicable | Not applicable | | | Not applicable | | |
| | | | | | | |
| 11 | | | | 12 | | |
| Deputation (including short-term contract) | | | | Deputation (including short-term contract) | | |
| | | | | Officers under the Central/State Government/Union Territories/Agricultural Universities/Recognised Research Institutes/Indian Council of Agriculture Research including its Research Institutions : | | |
| | | | | (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or | | |
| | | | | (ii) with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 8,000-13,500 or equivalent in the parent cadre/department; and | | |
| | | | | (b) possessing the educational qualifications and experience as under :- | | |
| | | | | (i) Master's Degree in Agriculture with specialization in Horticulture or M.Sc. (Horticulture) followed by a PhD in Horticulture of a recognized University or equivalent. | | |
| | | | | (ii) 5 years' experience in the field of Horticultural Development/Research | | |
| | | | | Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 4 years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications. | | |
| | | | | | | |
| 13 | | | | 14 | | |
| Not applicable | | | | Consultation with Union Public Service Commission is necessary for filling up of post. | | |
| | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. Assistant Horticultural Specialist | 3* (2007) *(Subject to variation dependent on work-load) | General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial | Rs. 8,000-275-13,500 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |

| | | | | | | |
|--|---|---|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| 8 | 9 | 10 | | | | |
| Not applicable | Not applicable | Not applicable | | | | |
| 11 | 12 | | | | | |
| Deputation (including short-term contract) | <p>Deputation (including short-term contract)</p> <p>Officers under the Central/State Governments/Union Territories/Agricultural Universities/Recognised Research Institutes/Indian Council of Agriculture Research including its Research Institutions :—</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or</p> <p>(ii) with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 6,500-10,500 or equivalent in the parent cadre/department; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and experience as under :—</p> <p>(i) Master's Degree in Agriculture with specialization in Horticulture or M.Sc. (Horticulture) of a recognized University or equivalent.</p> <p>(ii) 3 years' experience in the field of Horticultural Development/Research</p> <p>Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.</p> | | | | | |
| 13 | 14 | | | | | |
| Not applicable | Consultation with Union Public Service Commission is necessary for filling up of post. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. Senior Farm Manager | 1* (2007) *(Subject to variation dependent on work-load) | General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial | Rs. 8000-275-13,500 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| 8 | 9 | | 10 | | | |
| Not applicable | Not applicable | | Not applicable | | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| 11 | 12 | | | | | |
| Deputation (including short-term contract) | Deputation (including short-term contract) Officers under the Central/State Governments/Union Territories/Agricultural Universities/Recognised Research Institutes/Indian Council of Agriculture Research including its Research Institutions :- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 6,500-10,500 or equivalent in the parent cadre/department; and (b) possessing the educational qualifications and experience as under :- (i) Degree in Horticulture/Agriculture with Specialization in Horticulture of a recognized University or equivalent. (ii) 3 years' experience in the management of horticultural or agricultural farms Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications. | | | | | |
| 13 | 14 | | | | | |
| Not applicable | Consultation with Union Public Service Commission is necessary for filling up of post. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5. Post Harvest Technologist | 1* (2007) *(Subject to variation dependent on work-load) | General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial | Rs. 10000-325-15200 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| 8 | 9 | | | 10 | | |
| Not applicable | Not applicable | | | Not applicable | | |
| 11 | | | | 12 | | |
| Deputation (including short-term contract) | Deputation (including short-term contract) Officers under the Central/State Governments/Union Territories/Agricultural Universities/Recognised Research Institutes/Indian Council of Agriculture Research including its Research Institutions :- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or | | | | | |

12

- (ii) with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 8,000-13,500 or equivalent in the parent cadre/department; and
- (b) possessing the educational qualifications and experience as under :—
- (i) Master's Degree in Horticulture/Post Harvest Technology/Agriculture with specialization in Post Harvest Management of a recognized University or equivalent.-
- (ii) 5 years' experience in Post harvest management in the field of Horticulture in agriculture

Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 4 years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

13

Not applicable

14

Consultation with Union Public Service Commission is necessary for filling up of post.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------|---|---|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| 6. Marketing Specialist | 1* (2007) *(Subject to variation dependent on work-load) | General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial | Rs. 10000-325-15200 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |

8

Not applicable

9

Not applicable

10

Not applicable

11

Deputation (including short-term contract)

12

Deputation (including short-term contract)

Officers under the Central/State Governments/Union Territories/Agricultural Universities/Recognised Research Institutes/Indian Council of Agriculture Research including its Research Institutions :—

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or
- (ii) with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 8,000-13,500 or equivalent in the parent cadre/department; and

12

(b) possessing the educational qualifications and experience as under :—

- (i) Master of Business Administration of a recognized University or equivalent.
- (ii) 5 years' experience in the field of Horticulture Development/Agriculture Marketing/Agriculture Economics in a public or private institution/organization with reference to marketing of agricultural/horticultural produce.

Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 4 years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

| | |
|----------------|--|
| 13 | 14 |
| Not applicable | Consultation with Union Public Service Commission is necessary for filling up of post. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------|--|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 7. Administrative Officer | 1* (2007) (Subject to variation dependent on work-load) | General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial | Rs. 8000-275-13500 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |

| 8 | 9 | 10 |
|----------------|----------------|----------------|
| Not applicable | Not applicable | Not applicable |

| 11 | 12 |
|------------|---|
| Deputation | <p>Deputation Officers under the Central/State Governments/Union Territories :—</p> <ol style="list-style-type: none"> (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 6,500-10,500 or equivalent in the parent cadre/department; and (b) possessing the educational qualifications and experience as under :— <ol style="list-style-type: none"> (i) Degree of a recognized University or equivalent. (ii) 3 years' experience in Administration, Establishment and Accounts work. |

12

Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

| | |
|----------------|--|
| 13 | 14 |
| Not applicable | Consultation with Union Public Service Commission is necessary for filling up of post. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------------------------|--|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 8. Personal Assistant to Director | 1* (2007) (Subject to variation dependent on work-load). | General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial | Rs. 5500-175-9000 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 8 | 9 | 10 |
| Not applicable | Not applicable | Not applicable |

| | |
|------------|--|
| 11 | 12 |
| Deputation | <p>Deputation : Officers under the Central/State Governments/Union Territories:</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the Stenographer Grade-I in the parent cadre/department; or (ii) with 3 years' service as a Stenographer in the Stenographer Grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 5000-8000 or equivalent in the parent cadre/department; and</p> <p>Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.</p> |

| | |
|----------------|--|
| 13 | 14 |
| Not applicable | Consultation with Union Public Service Commission is necessary for filling up of post. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|--|---|-------------------|--|----------------|----------------|
| 9. Senior Technical Assistant | 2* (2007) (Subject to variation dependent on work-load). | General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial | Rs. 5000-150-8000 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| | | | | | | |
| 8 | 9 | | | 10 | | |
| Not applicable | Not applicable | | | Not applicable | | |
| | | | | | | |
| 11 | | | | 12 | | |
| Deputation (including short-term contract) | | | | Deputation (including short-term contract) : Officers under the Central/State Governments/Union Territories/Agricultural Universities/Recognised Research Institutes/Indian Council of Agriculture Research including its Research Institutions :— (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) with 3 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 4500-7000 or equivalent in the parent cadre/department; and (b) possessing the educational qualifications and experience as under :— (i) Degree in Horticulture/Agriculture of a recognized University or equivalent. (ii) 1 year's experience in the field of horticultural or agricultural Development/Extension/Planning/Marketing/Research Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 4 years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications. | | |
| | | | | | | |
| 13 | | | | 14 | | |
| Not applicable | | | | Not applicable | | |
| | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10. Field Assistant | 2* (2007) (Subject to variation dependent on work-load). | General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial | Rs. 4000-100-6000 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |

| 8 | 9 | 10 |
|----------------|----------------|----------------|
| Not applicable | Not applicable | Not applicable |

| 11 | 12 |
|--|---|
| Deputation (including short-term contract) | Deputation (including short-term contract) Officers under the Central/State Governments/Union Territories/Agricultural Universities/Recognised Research Institutes/Indian Council of Agriculture Research including its Research Institutions :— (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 3200-4900 or equivalent in the parent cadre/department; and (b) possessing the educational qualifications and experience as under :— (i) Bachelor's Degree in any subject or Diploma in Agriculture/Horticulture of a recognized University/Institution or equivalent. Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 4 years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications. |

| 13 | 14 |
|----------------|----------------|
| Not applicable | Not applicable |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 11. Steno-grapher | 2* (2007) *(Subject to variation dependent on work-load) | General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial | Rs. 4000-100-6000 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |

| 8 | 9 | 10 |
|----------------|----------------|----------------|
| Not applicable | Not applicable | Not applicable |

9682707-6

| 11 | 12 |
|--|---|
| Deputation (including short-term contract) | <p>Deputation (including short-term contract)</p> <p>Officers under the Central/State Governments/Union Territories/Agricultural Universities/Recognised Research Institutes/Indian Council of Agriculture Research including its Research Institutions :—</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis; or</p> <p>(ii) with 8 years' regular service in post in the scale of pay of Rs. 3050—4590.</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and experience as under :—</p> <p>10th class pass or equivalent with 80 w.p.m. in shorthand and 40 w.p.m. in typewriting.</p> <p>Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 4 years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.</p> |
| 13 | 14 |
| Not applicable | Not applicable |

[F. No. 43-7/2006-Hort.-III]

Dr. M. L. CHOUDHARY, Horticulture Commissioner & Jt. Secy.